

7. Define externalities. Discuss effective ways to reduce externalities in the use of public goods.

16

बाह्यताओं को परिभाषित कीजिए । सार्वजनिक सामानों के उपयोग में बाह्यताओं को कम करने के लिए प्रभावी तरीकों का वर्णन कीजिए ।

Unit IV

इकाई IV

8. Differentiate adverse selection and moral hazards with suitable examples from insurance markets.

16

बीमा बाजारों के उपयुक्त उदाहरणों के साथ प्रतिकूल चयन और नैतिक खतरों का वर्णन कीजिए ।

9. Differentiate risk with uncertainty. Discuss various methods to reduce risk with special reference to the diversification of investment portfolio.

16

अनिश्चितता के साथ जोखिम में विभेद कीजिए । निवेश पोर्टफोलियो की विविधता के विशेष संदर्भ में जोखिम कम करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए ।

Subject Code—53477

M. A. EXAMINATION

(Batch 2017) (Re-appear)

(Second Semester)

ECONOMICS

Paper-201

Micro Economic Analysis-II

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 80

Note : Attempt *Five* questions in all. Q. No. 1 is compulsory. All questions carry equal marks.

कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रश्न क्र. 1 अनिवार्य है । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

1. Write short notes on the following :

- (a) Full cost pricing
- (b) Marginalism
- (c) Backward bending supply of labour
- (d) Contact curve

- (e) Bergson's utility function
- (f) Non-existence of a market
- (g) Common property resources
- (h) Marginal social benefits. 16

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (अ) पूर्व लागत मूल्य-निर्धारण
- (ब) सीमान्तवाद
- (स) श्रम की बैकवर्ड बैडिंग आपूर्ति
- (द) सम्पर्क वक्र
- (इ) बर्गसन का उपयोगिता चलन
- (फ) बाजार का गैर-अस्तित्व
- (ज) साधारण सम्पत्ति संसाधन
- (ह) सीमान्त सामाजिक लाभ ।

Unit I

इकाई I

2. Discuss Bain's limit pricing theory. 16

बैन का मूल्य-निर्धारण सीमा सिद्धांत का वर्णन कीजिए ।

3. Explain Marris's managerial model of the firm. 16

मैरिस के फर्म का प्रबन्धकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए ।

Unit II

इकाई II

4. Explain the Kaldor's theory of distribution. In what respects is it superior to the Ricardian theory of distribution ? 16

काल्डोर का वितरण सिद्धांत समझाइए । किस संदर्भ में यह रिकार्डियन वितरण सिद्धांत से श्रेष्ठ है ?

5. Elaborate the process of factor price determination under imperfect markets. 16

अपूर्ण बाजारों के अंतर्गत कारक मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए ।

Unit III

इकाई III

6. Explain the equity-efficiency trade-off in optimal resource use with welfare considerations. 16

कल्याणकारी विचारों के साथ इष्टतम संसाधन के उपयोग में समता-दक्षता व्यापार बंद (Trade-off) की व्याख्या कीजिए ।